



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

11 मार्च 2011

संख्या 10

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	5 मार्च	25 फरवरी	4 मार्च #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	7,83,466	9,28,801	9,33,682	4,882	1,50,217
संचलन में नोट	7,83,455	9,28,784	9,33,671	4,887	1,50,215
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	10	17	12	-5	1
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	100	27,498	101	-27,397	1
बाजार स्थिरीकरण योजना	7,737	—	—	—	-7,737
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,62,757	3,15,978	3,21,525	5,547	58,767
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,728	3,569	3,813	245	85
अन्य बैंक	12,915	15,022	15,553	530	2,638
अन्य	11,845	12,316	11,860	-456	15
अन्य देयताएं	3,35,066	3,68,895	3,64,544	-4,351	29,478
कुल देयताएं / आस्तियां	14,17,655	16,72,120	16,51,119	-21,001	2,33,463
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,64,285	12,32,547	12,29,192	-3,355	64,907
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	82,845	1,00,739	1,00,041	-698	17,196
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,46,684	3,26,376	3,07,484	-18,892	1,60,800
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	341	1,199	2,033	834	1,691
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	95	3,352	4,342	990	4,247
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	30	69	39	69
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	3,366	314	314	—	-3,052
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	1,320	1,320	—	-1,430
अन्य आस्तियां	17,289	6,242	6,324	82	-10,965

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	4 मार्च 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2010 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	13,61,789	302,593	-4,143	1,807	1,02,124	23,536	29,435	5,259	86,327	24,162
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	12,28,067	272,964	-3,346	1,548*	78,417	18,279	27,990	5,150	64,927	18,892
(ख) स्वर्ण \$	1,00,041	22,143	-698	219	18,853	4,157	-645	-327	17,196	4,223
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	23,414	5,204	-69	28	818	198	661	126	308	157
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	10,267	2,282	-30	12	4,036	902	1,429	310	3,896	890

+ आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया ₹ 1,125 करोड़ / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश छोड़कर।

* अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होने वाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

@ इसमें सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीओर (4,883 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीओर (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹ 31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	25 फरवरी 2011 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2009-2010	2010-2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	70,965	2,716	7,310	6,034	12,028	14,799
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	26,352	20	-8,419	-6,006	-6,833	5,283
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	7,099	118	-15,915	1,121	-24,261	1,242
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	50,83,852	41,697	5,33,240	5,91,026	6,32,610	7,16,503
		(0.8)	(13.9)	(13.2)	(16.9)	(16.4)
मांग	6,00,876	27,679	48,379	-44,733	95,673	29,412
मीयादी	44,82,976	14,018	4,84,860	6,35,760	5,36,937	6,87,091
उधार ⁽³⁾	1,23,444	-1,315	-8,450	19,166	-9,758	17,958
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,32,069	8,687	32,281	2,649	37,434	-7,732
रिजर्व बैंक से उधार	3,352	357	-11,488	3,310	-6,873	3,112
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,46,976	3,672	47,970	40,009	90,658	40,531
पास में नकदी	30,999	1,443	6,470	5,421	5,429	4,248
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,15,978	2,229	41,500	34,587	85,229	36,283
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	51,378	1,631	935	-11,043	8,855	-2,466
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	15,634	1,329	-946	-2,035	-5,907	1,542
बैंकों को अग्रिम	6,553	437	-89	-3,339	143	3,738
अन्य आस्तियां	54,199	1,917	-21,068	9,736	-20,310	23,546
निवेश⁽⁵⁾	14,85,162	14,880	2,14,264	1,00,410	1,94,117	1,04,488
		(1.0)	(18.4)	(7.3)	(16.4)	(7.6)
सरकारी प्रतिभूतियों में	14,80,541	14,661	2,18,378	1,02,146	1,98,059	1,06,377
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,621	219	-4,114	-1,737	-3,942	-1,889
बैंक ऋण	38,10,445	25,875	3,17,200	5,65,657	4,24,822	7,17,695
		(0.7)	(11.4)	(17.4)	(15.9)	(23.2)
खाद्य ऋण	65,292	1,289	1,680	16,802	-539	17,400
खाद्येतर ऋण	37,45,153	24,586	3,15,520	5,48,855	4,25,361	7,00,295
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	36,69,169	23,893	3,02,570	5,47,011	4,04,577	6,90,923
देशी बिल - खरीदे गए	13,058	-606	-94	1,044	1	1,438
भुनाए गए ⁽⁶⁾	72,570	1,694	15,012	10,352	17,410	14,401
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,603	500	-1,200	2,470	890	1,280
भुनाए गए	37,045	394	913	4,779	1,944	9,653
नकद-जमा अनुपात	6.83					
निवेश-जमा अनुपात	29.21					
ऋण-जमा अनुपात	74.95					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफिजम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	26 फरवरी	21 जनवरी	28 जनवरी	4 फरवरी	11 फरवरी	18 फरवरी	25 फरवरी
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	11.00/12.00	8.00/9.00	8.00/9.00	8.00/9.50	8.00/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50
जमा दर ⁽³⁾	6.00/7.50	7.00/8.75	7.00/8.75	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50
मांग मुद्रा दर (भारंकित औसत) ⁽⁴⁾	3.24	6.66	6.65	6.74	6.61	6.81	6.77

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध न्यूनतम मूल उधार दर से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है। मांग मुद्रा दर (भारंकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा भारंकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2010 - 2011			2009 - 2010		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2010	2011		2009	2010	
	26 मार्च	25 फरवरी		27 मार्च	26 फरवरी	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	32,44,788	38,10,445	5,65,657 (17.4)	27,75,549	30,92,750	3,17,200 (11.4)
क. खाद्य ऋण	48,489	65,292	16,802	46,211	47,891	1,680
ख. खाद्येतर ऋण	31,96,299	37,45,153	5,48,855	27,29,338	30,44,859	3,15,520
			(17.2)			(11.6)
2. निवेश	1,18,071	1,57,543	39,472	1,06,417	1,07,311	894
क. वाणिज्यिक पत्र	25,188	33,766	8,578	20,001	16,372	-3,629
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	30,106	36,997	6,891	27,829	30,335	2,506
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	4,625	8,435	3,810	2,769	4,147	1,378
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	25,481	28,563	3,081	25,060	26,188	1,128
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	62,777	86,780	24,004	58,587	60,604	2,017
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	22,710	24,063	1,354	25,456	21,930	-3,526
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	40,067	62,717	22,650	33,131	38,674	5,543
3. कुल (1+2)	33,14,370	39,02,697	5,88,327 (17.8)	28,35,755	31,52,170	3,16,415 (11.2)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	52,887	85,717	32,830	37,035	1,11,994	74,959
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	32,597	29,602	-2,995	32,585	30,285	-2,300
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	30,902	33,433	2,531	31,073	30,022	-1,051

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	28 फर.	1 मार्च	2 मार्च +	3 मार्च	4 मार्च	28 फर.	1 मार्च	2 मार्च +	3 मार्च	4 मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	45.18	45.12		44.96	44.99	—	—		2.09	1.84
यूरो	62.15	62.32		62.33	62.80	—	—		0.40	-0.30
फेडरैड की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	45.1700	45.1100		44.9500	44.9900	—	—		2.10	1.83
डॉलर { बिक्री	45.1800	45.1200		44.9600	45.0000	—	—		2.10	1.83
पौंड { खरीद	72.7725	73.3850		73.3500	73.2350	—	—		-6.03	-5.82
स्टर्लिंग { बिक्री	72.8075	73.4150		73.3825	73.2700	—	—		-6.03	-5.83
यूरो { खरीद	62.1575	62.3100		62.3225	62.8050	—	—		0.40	-0.32
{ बिक्री	62.1775	62.3325		62.3450	62.8300	—	—		0.40	-0.31
100 येन { खरीद	55.2950	54.9050		54.9050	54.6450	—	—		-5.98	-5.00
{ बिक्री	55.3275	54.9300		54.9425	54.6650	—	—		-6.01	-4.97
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	7.70	7.18		6.94	7.07					
3 - माह	6.91	6.83		6.76	6.85					
6 - माह	6.60	6.47		6.36	6.45					

+ बाज़ार बंद।

— पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाज़ार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2010	2011	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2009-2010		2010-2011		2010		2011	
	31 मार्च #	25 फर. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम₃	55,99,762	63,59,197	51,785	0.8	6,62,494	13.8	7,59,435	13.6	7,92,696	17.0	9,01,891	16.5
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	7,68,033	9,05,628	-1,805	-0.2	90,061	13.5	1,37,595	17.9	1,05,490	16.2	1,50,118	19.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,22,739	6,73,767	30,444	4.7	48,519	8.2	-48,972	-6.8	1,06,932	20.2	36,560	5.7
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	41,05,151	47,76,184	22,655	0.5	5,25,787	14.9	6,71,033	16.3	5,82,553	16.7	7,15,293	17.6
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,839	3,618	492	15.7	-1,872	-33.6	-221	-5.8	-2,278	-38.1	-79	-2.1
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	16,67,096	18,58,791	17,362	0.9	3,26,853	25.6	1,91,695	11.5	4,07,349	34.0	2,54,605	15.9
(क) रिजर्व बैंक	2,11,586	3,00,211	780		90,296		88,626		1,91,667		1,48,335	
(ख) अन्य बैंक	14,55,511	15,58,580	16,582	1.1	2,36,557	19.5	1,03,069	7.1	2,15,683	17.4	1,06,270	7.3
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	34,92,781	40,79,938	33,256	0.8	3,28,464	10.9	5,87,156	16.8	4,42,396	15.2	7,36,581	22.0
(क) रिजर्व बैंक	1,328	1,570	—	—	-9,107	—	242	—	-2,128	—	-3,143	—
(ख) अन्य बैंक	34,91,453	40,78,367	33,256	0.8	3,37,571	11.2	5,86,914	16.8	4,44,524	15.4	7,39,723	22.2
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,81,469	13,96,679	-1,223	-0.1	-50,909	-3.8	1,15,211	9.0	-1,880	-0.1	95,404	7.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	11,270	12,152	—	—	1,113	11.1	883	7.8	1,183	11.9	985	8.8
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	8,52,854	9,88,363	-2,389	-0.2	-56,973	-6.6	1,35,509	15.9	56,352	7.6	1,85,684	23.1
	3,01,615	3,71,505	-1,937	-0.5	-48,232	-12.4	69,890	23.2	-17,159	-4.8	31,807	9.4

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2010	2011	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2009-2010		2010-2011		2010		2011	
	31 मार्च #	4 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	11,55,686	12,89,875	10,752	0.8	89,685	9.1	1,34,189	11.6	1,69,970	18.7	2,12,193	19.7
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	7,99,549	9,45,823	4,887	0.5	1,03,470	15.0	1,46,274	18.3	1,09,830	16.0	1,51,200	19.0
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	3,52,299	3,40,890	6,322	1.9	-11,874	-4.1	-11,408	-3.2	61,463	28.2	61,490	22.0
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,839	3,162	-456	-12.6	-1,911	-34.3	-677	-17.6	-1,323	-26.6	-497	-13.6
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	2,11,586	3,09,525	9,314		77,739		97,940		1,48,937		1,70,206	
	2,11,581	3,07,534	8,481		77,258		95,953		1,49,658		1,68,515	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	2,497	6,025	1,029		-19,416		3,528		-5,831		1,264	
	1,169	4,455	1,029		-10,262		3,286		-2,795		4,360	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,31,949	13,29,215	-4,053	-0.3	-33,004	-2.6	97,267	7.9	-21,694	-1.7	82,103	6.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	11,270	12,152	—	—	1,113	11.1	883	7.8	1,183	11.9	985	8.8
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,01,615	3,67,043	-4,462	-1.2	-63,252	-16.3	65,428	21.7	-47,376	-12.7	42,366	13.0

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) /कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 फर. 2011	1	36	51,710	36	51,710	6.50	1	300	1	300	5.50	51,410	
28 फर. 2011 \$	1	19	29,010	19	29,010	6.50	2	490	2	490	5.50	28,520	-79,930
1 मार्च 2011	2	31	50,530	31	50,530	6.50	1	500	1	500	5.50	50,030	
1 मार्च 2011 \$	2	22	28,845	22	28,845	6.50	1	95	1	95	5.50	28,750	-78,780
3 मार्च 2011	1	31	41,250	31	41,250	6.50	—	—	—	—	—	41,250	
3 मार्च 2011 \$	1	11	18,055	11	18,055	6.50	2	1,465	2	1,465	5.50	16,590	-57,840
4 मार्च 2011	3	27	31,835	27	31,835	6.50	—	—	—	—	—	31,835	
4 मार्च 2011 \$	3	18	18,345	18	18,345	6.50	1	580	1	580	5.50	17,765	-49,600

@ रिपो को घटकर। \$ द्वितीय एलएएफ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी: 8 मई 2009 से सामान्यतया रिपोरिंग शुक्रवार को द्वितीय एलएएफ (एसएलएएफ) आयोजित किया जा रहा है। चलनिधि को सुगम बनाने के उपाय के रूप में एसएलएएफ को 8 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिए दैनिक आधार पर अस्थायी रूप से आयोजित किया जा रहा है।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खज़ाना बिल													
2010-2011													
7 जुलाई	9 जुलाई	2,000	81	8,361	500	24	2,000	500	—	2,500	98.69	5.3653	63,000
6 अक्तू.	8 अक्तू.	4,000	64	7,411	500	45	4,000	500	—	4,500	98.44	6.3977	59,279
5 जन.	7 जन.	4,000	85	10,008	500	40	4,000	500	—	4,500	98.27	7.1027	62,859
1 मार्च	4 मार्च	5,000	70	10,928	1,000	39	5,000	1,000	—	6,000	98.25	7.1443	66,091
182-दिवसीय खज़ाना बिल													
2010-2011													
7 जुलाई	9 जुलाई	1,500	42	2,747	300	30	1,500	300	—	1,800	97.27	5.7771	21,800
13 अक्तू.	15 अक्तू.	2,000	46	3,434	—	21	1,000	—	—	1,000	96.73	6.8225	20,300
5 जन.	7 जन.	1,500	50	5,332	—	14	1,500	—	—	1,500	96.53	7.2954	20,500
1 मार्च	4 मार्च	2,000	53	6,893	—	16	2,000	—	—	2,000	96.40	7.5110	21,001
364-दिवसीय खज़ाना बिल													
2010-2011													
14 जुलाई	16 जुलाई	1,000	61	5,460	—	14	1,000	—	—	1,000	94.66	5.6903	45,614
6 अक्तू.	8 अक्तू.	2,000	57	4,531	42	33	2,000	42	—	2,042	93.67	6.8564	42,644
12 जन.	14 जन.	1,000	48	3,969	—	8	1,000	—	—	1,000	93.08	7.5012	42,610
23 फर.	25 फर.	3,000	77	7,977	—	33	3,000	—	—	3,000	92.91	7.6752	42,595

टिप्पणी: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्तूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

1	दिनांक													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26 फर.	27 फर.	28 फर.	1 मार्च	2 मार्च	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च	7 मार्च	8 मार्च	9 मार्च	10 मार्च	11 मार्च
11 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधौ अपेक्षाएँ	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167	3,20,167
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,21,842	3,21,842	3,36,953	3,40,901	3,41,717	3,28,554	3,21,398							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संवर्धित आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
1 जनवरी 2010	2,64,246	31,102	3.75 — 6.75
9 अप्रैल 2010	3,41,830	21,791	4.35 — 8.95
2 जुलाई 2010	3,42,362	44,167	5.92 — 7.05
8 अक्तूबर 2010	3,44,158	38,285	6.36 — 8.26
14 जनवरी 2011	3,71,881	44,019	7.18 — 9.82
28 जनवरी 2011	3,77,640	26,713	7.35 — 9.90

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जनवरी 2010	92,363	11,503	3.15 — 7.55
15 अप्रैल 2010	83,165	12,207	3.85 — 8.40
15 जुलाई 2010	1,07,755	11,680	6.02 — 8.75
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50 — 10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60 — 11.95
31 जनवरी 2011	1,01,752	11,782	6.94 — 12.50

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बढ़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010		2011	निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		20 फर.	25 दिस. *	19 फर. #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	163.0	197.4	187.2	-1.2	-3.8	12.4	14.8
(i) फल और सब्जियां	3.84	139.6	221.2	161.1	-2.4	-23.6	16.5	15.4
ईंधन और विद्युत	14.91	135.4	150.7	152.4	—	0.3	8.8	12.6
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	4 मार्च	28 फरवरी	1 मार्च	2 मार्च +	3 मार्च	4 मार्च
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	16971.70	17823.40	18446.50		18489.76	18486.45
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5080.25	5333.25	5522.30		5536.20	5538.75

+ बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	21 जन. 2011	28 जन. 2011	4 फर. 2011	11 फर. 2011	18 फर. 2011	25 फर. 2011	4 मार्च 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	7,914	6,398	7,414	8,316	8,863	13,746	11,834
ख) दिए गए ऋण	8,536	7,149	7,858	8,885	9,366	14,263	12,106
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	629	751	444	569	503	516	272
ख) दिए गए ऋण	7	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	8,543	7,149	7,858	8,885	9,366	14,263	12,106
ख) दिए गए ऋण	8,543	7,149	7,858	8,885	9,366	14,263	12,106

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	28 जन. 2011	4 फर. 2011	11 फर. 2011	18 फर. 2011	25 फर. 2011	4 मार्च 2011
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	66,715	64,806	57,005	76,950	86,006	75,963
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,473	2,968	849	1,875	1,591	1,724
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	9,707	7,772	5,742	4,967	7,453	5,796
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	997	1,368	916	729	474	1,041
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	980	763	949	823	1,841	2,735
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	—	1,199	1	1,968	5,388	516

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
14 फरवरी 2011	2,964	1,030	1,298	360	551	457	5,625	6,450	1,641	3,272	1,792	376
15 फरवरी 2011	3,651	1,667	696	296	924	683	6,280	5,577	1,761	3,618	1,224	220
16 फरवरी 2011	110	150	16	6	706	689	207	394	78	926	86	7
17 फरवरी 2011	3,699	1,617	620	224	1,741	1,325	6,452	7,372	1,613	3,935	1,885	686
18 फरवरी 2011	3,908	1,026	704	287	931	622	6,249	6,370	2,065	3,475	2,160	391
बिक्री												
14 फरवरी 2011	2,998	1,797	788	383	560	480	5,946	6,894	1,907	3,244	1,910	410
15 फरवरी 2011	3,057	1,301	983	270	926	739	6,108	5,807	1,949	3,584	1,320	198
16 फरवरी 2011	81	14	54	6	706	687	320	76	42	930	86	—
17 फरवरी 2011	3,182	1,423	1,039	336	1,745	1,288	7,059	7,580	1,740	4,067	1,776	808
18 फरवरी 2011	3,359	1,878	1,051	271	941	630	6,609	6,163	2,076	3,379	2,108	309

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	28 जनवरी 2011	4 फरवरी 2011	11 फरवरी 2011	18 फरवरी 2011	25 फरवरी 2011	4 मार्च 2011
1	2	3	4	5	6	7
राशि	341.67	934.54	464.61	403.37	783.78	278.05

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	4 मार्च 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	18,257	5,801	11,799	35,857	2,026	-21,721
राज्य सरकारें	95,964	15,086	500	351	1,11,901	9,006	17,875
अन्य	1,964	32,749	14,699	30,446	79,858	-651	1,216

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार : 2010-2011

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2010-2011 (4 मार्च 2011 तक)	2009-2010 (5 मार्च 2010 तक)	2009-2010	2010-2011 (4 मार्च 2011 तक)	2009-2010 (5 मार्च 2010 तक)	2009-2010
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल	4,37,000	4,46,000 @	4,51,000 \$	3,25,414	3,93,411 @	3,98,411 \$
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* बिक्री खरीद	11,216 78,458	9,008 84,487	9,931 85,400			

\$ इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के ₹ 33,000 करोड़ शामिल है।

@ इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के ₹ 28,000 करोड़ शामिल है।

* भारिबैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	25 फरवरी 2011 को समाप्त सप्ताह			4 मार्च 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2010-11	—	—	—	—	—	—
2011-12	350	7.4300	7.4500	500	7.3187	7.4500
2012-13	284	7.4393	7.5277	190	7.4134	7.5714
2013-14	478	7.6001	7.7349	96	7.6367	7.7175
2014-15	10	8.0323	8.0323	11	8.0323	8.0351
2015-16	3,240	8.0028	8.0986	2,715	7.9366	8.0694
2016-19	3,707	7.8324	8.5191	2,501	7.9696	8.4925
2019-20	110	7.8184	8.2062	20	8.1331	8.1408
2020 से आगे	34,825	8.0012	8.5777	31,948	7.9218	8.5776
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	795	8.3400	8.5497	862	8.3900	8.5216
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	611	5.4783	6.6580	721	6.5312	6.7496
ख) 15 - 91 दिन	3,251	6.1597	7.2444	2,247	6.3418	7.1443
ग) 92 - 182 दिन	227	7.1000	7.5327	516	7.2000	7.5110
घ) 183 - 364 दिन	796	7.5000	7.6752	1,302	7.5000	7.6975
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	3,499			256		
: खरीद	1,889			260 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	77,457	4.75 (1)	8.00 (15)	62,991	2.00 (1)	8.40 (22)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	234	5.50 (1)	6.50 (3)	163	6.48 (1)	6.51 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	10,125	6.30 (1)	6.60 (3)	7,907	6.35 (1)	6.55 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,981	5.50 (1)	6.60 (3)	1,950	6.45 (1)	6.55 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,462	2.00 (1)	6.60 (3)	3,114	5.00 (1)	7.05 (3)
IV. भा.रि.बैं. * : रिपो * ^	3,84,885	—	6.50	2,69,580	—	6.50
: रिवर्स रिपो !	5,590	—	5.50	3,430	—	5.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹ 5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹ 800 और ₹ 2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 से प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।